

कर्मचारी चयन आयोग
गोपनीय-1/1

विषय : कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिकी, वैद्युत और मात्रा सर्वेक्षण एवं संविदा) परीक्षा, 2020 - पेपर- II (वर्णनात्मक पेपर) में उपस्थित होने हेतु अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए पेपर- I के परिणाम की घोषणा ।

कर्मचारी चयन आयोग ने दिनांक 22.03.2021 से 24.03.2021 तक देश भर के विभिन्न केंद्रों में कंप्यूटर आधारित मोड में कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिकी, वैद्युत और मात्रा सर्वेक्षण एवं संविदा) परीक्षा, 2020 (पेपर-1) का आयोजन किया था ।

2. संभावित उत्तर कुंजियों के विरुद्ध अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रतिवेदनों की गहनतापूर्वक जांच की गई और जहां कहीं भी आवश्यकता थी, उत्तर कुंजियों को संशोधित किया गया। संशोधित उत्तर कुंजियों का प्रयोग मूल्यांकन के लिए किया गया है।

3. चूंकि पेपर-1 (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) को कई पालियों में आयोजित किया गया था, अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित सूत्र के अनुसार सामान्यीकृत किया गया है। परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 12.7 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षा के अगले चरण (अर्थात् पेपर-II) में अभ्यर्थियों की उपस्थिति के लिए उनकी अर्हता हेतु परिणाम तैयार करने के लिए उनके सामान्यीकृत अंकों का उपयोग किया गया है।

4. परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा -17.1 के संदर्भ में, पेपर-1 में न्यूनतम अर्हक अंक अना. के लिए 30% (अर्थात् 60 अंक), अ.पि.व. और आ.क.व. के लिए 25% (अर्थात् 50 अंक) और अन्य सभी श्रेणियों के लिए 20% (अर्थात् 40 अंक) निर्धारित किए गए हैं।

5. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए श्रेणीवार कट-ऑफ विवरण और परीक्षा के पेपर-II (वर्णनात्मक) में उपस्थित होने के लिए अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार है:

I. सिविल अभियांत्रिकी :

श्रेणी	कट-ऑफ अंक	उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या
अ.जा.	99.15648	664
अ.ज.जा.	99.15648	359
अ.पि.व.	114.21184	1360
आ.क.व.	108.14574	621
अना.	120.02518	701*
अ.दि.	79.83729	65
श्र.दि.	48.86278	56
कुल		3826

* अना. मानकों में अर्हता प्राप्त करने वाले 56-अ.जा., 30-अ.ज.जा., 744-अ.पि.व., और 204- आ.क.व., अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित श्रेणियों में दर्शाया गया है।

II. वैद्युत /यांत्रिकी अभियांत्रिकी:

श्रेणी	कट-ऑफ अंक	उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या
अ.जा.	123.23149	333
अ.ज.जा.	115.34476	146
अ.पि.व.	137.46300	696
आ.क.व.	131.23676	277
अना.	141.59716	353*
अ.दि.	99.43252	48

श्र.दि.	63.07700	32
	कुल	1885

*अना. मानकों में अर्हता प्राप्त करने वाले 29-अ.जा., 02-अ.ज.जा., 390-अ.पि.व., और 84-आ.क.व., अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित श्रेणियों में दर्शाया गया है।

6. कनिष्ठ अभियंता परीक्षा, 2020 की वर्णनात्मक परीक्षा (पेपर-11) की तिथि शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी आगे के अपडेट के लिए आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट को नियमित तौर पर देखते रहें।

7. अंतिम उत्तर-कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 07.07.2021 को एक माह की अवधि के लिए अपलोड की जाएंगी।

8. अर्हताप्राप्त/गैर-अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों के अंक दिनांक 10.07.2021 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने पंजीकरण संख्या और पंजीकृत पासवर्ड का उपयोग करके दिनांक 10.07.2021 से 31.07.2021 तक अपने अंक देख सकते हैं।

अवर सचिव (गो -1/1)
30.06.2021